

TATA CAPITAL LIMITED

Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013.

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

(As per Appendix I read with Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

This is to inform that Tata Capital Ltd. (TCL) is a non-banking finance company and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at Peninsula Business Park, Tower A, 11th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 and a branch office at New Delhi (Branch). This vide Order dated 24.11.2023, the National Company Law Tribunal (NCLT) Mumbai has duly sanctioned the Scheme of Arrangement between Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL) and Tata CleanTech Capital Limited (TCLCL) as transferees and Tata Capital Limited (TCL) as transferee under the provisions of Sections 230 to 232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (said Scheme). In terms thereof, TCFSL and TCLCL (Transferor Companies) along with its undertaking have merged with TCL, as a going concern, together with all the properties, assets, rights, benefits, interest, duties, obligations, liabilities, contracts, agreements, securities etc. w.e.f. 01.01.2024. In pursuance of the said Order and the Scheme, all the facility documents executed by TCFSL and all outstanding in respect thereof stood transferred to Applicant Company and thus the TCL is entitled to claim the same from the [Borrowers/Co-Borrowers] in terms thereof.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice - 30.10.2025 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Symbolic/Constructive Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8(1) of the said Act.

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

[The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.]

Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Amount & Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession
TCFLA0325900 0011625654 & TCFLA0325900 0011516605	1. M/s Gupta Timber Traders Through Proprietor Mr Ajay Kumar, Plot No. 114-A, Block A, Shiv Vihar, Vikas Nagar, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059 2. Ajay Kumar, Plot No. 114-A, Block A, Shiv Vihar, Vikas Nagar, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059	Rs. 6146626 & 30-10-2025	11.02.2026
	3. Indu Devi W/o Ajay Kumar, Plot No. 114-A, Block A, Shiv Vihar, Kamlesh Public School, Vikas Nagar, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059 4. Ajay Kumar Gupta S/o Ajay Kumar, Plot No. 114-A, Block A, Shiv Vihar, Vikas Nagar, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059		

Description of Secured Assets/Immovable Properties: Plot No. 114-A, area measuring 75 sq yards, out of Khaska No. 8/13, situated in the area of Village Hastal, colony known as Shiv Vihar, Block A, Vikas Nagar, Uttam Nagar, Delhi-110059 more described in gift deed dated 02.01.2020 in favour of Mrs Indu Devi

Date: 14.02.2026 Place: Delhi Sd/- Authorised Officer: For Tata Capital Ltd

PAGARIA ENERGY LIMITED

(Formerly known as Women Networks Limited)
CIN: L68100DL1991PLC043677

Regd. Off.: 502, 5th Floor, Meghdoot Building, 94, Nehru Place, Nehru Place, Delhi-110019
Corp Office: 7th Floor Room-M11, 2 Biplabi Trailokya Maharaj Sarani, Radha Bazar, Kolkata-700001
Website: www.pagariaenergy.com Email: info@pagariaenergy.com

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED DECEMBER 31, 2025

(₹. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2025 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2025 Unaudited	
1	Total income from operations (net)	22.50	0.00	5.05	24.50	18.38
2	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	-5.70	-0.59	0.33	-5.93	1.07
3	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-5.70	-0.59	0.33	-5.93	1.07
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-5.70	-0.59	0.33	-5.93	1.07
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-5.70	-0.59	0.33	-5.93	1.07
6	Equity Share Capital	434.97	434.97	434.97	434.97	434.97
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic :	-0.13	-0.01	0.01	-0.14	0.02
	Diluted :	-0.13	-0.01	0.01	-0.14	0.02

Notes:
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company and BSE.
b) The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results for the 3rd quarter and nine months ended 31st December, 2025 filed with BSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the quarter ended un-audited financial results is available on the website of BSE and also on website of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/- Arpan Singha Roy
Managing Director
DIN - 10983936

Bank of India

Relationship beyond banking

Specialised Asset Recovery Management Branch
Mezzanine Floor, 70/80 M.G.Road, Fort, Mumbai 400 001, Tel 022-22673549
Contact Number:- 9819403549 E-mail: SARM.MumbaiSouth@bankofindia.bank.in

E-AUCTION FOR SALE OF MOVEABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of India, SARM Branch, will be sold on "As is Where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on 10.03.2026, for recovery of respective dues plus interest and charges up to date due to the Bank of India from respective borrower. The reserve price and earnest money deposit amount shall be as mentioned below in the table. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the web portal.

Sr. No	Name of the Borrowers/ Guarantor and Amount Outstanding	Description of The Mortgaged Properties under Physical/Symbolic Possession	Reserve Price (Rs. In Lakhs) EMD of the Property (Rs. In Lakhs)	Inspection Date/Time and Area
1	M/s. K M Goyal & Co Mr. Krishna Murarisunamal Agarwal Mr. Krishna Murarisunamal Agarwal Mr. Sunil Kumar Agarwal Ms. Sarojini Krishnamurari Agarwal Ms. Sangeeta Sunilkumar Agarwal Amount O/s - Rs.278.52 Lakhs + Interest + Expenses/Charges	Fiat No. 406, 4th floor, Anand Vrindaban Commercial Complex, Block NO. 13B/8, Sanjay Place, AGRA - 282002. Symbolic Possession	36 3.6	27.02.2026 Timing 12:00PM to 02:00PM Carpet Area - 751 Sq. Ft.

Terms and Conditions of the E-auction are as under:
1. The sale will be done on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis and will be conducted "On Line".
2. Bidder will have to visit www.baanknet.com for registration and participation in E auction. EMD cut-off date and time will be 10.03.2026 till 04:00 PM. Bidders are requested to complete all registration and EMD related formalities within the given time limit only.
3. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property/ies. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and the claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bid. The E-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues. No claim of whatsoever nature will be entertained after submission of the online bid regarding property/ies put for sale.
4. The date of on line E-auction for properties listed will be between 11.00 AM to 5.00 PM on 10.03.2026.
5. To better facilitate the inspection, interested buyers are requested to intimate the branch through e-mail at sarm.mumbaiSouth@bankofindia.bank.in and/or through contact numbers mentioned above and/or through Bank of India, SARM Branch contact no. 9819403549 / 022-22673549, to better facilitate the inspection.
6. Bid shall be submitted through online procedure only.
7. The Bid price to be submitted shall be at least one increment over and above the Reserve price and bidders are to improve their offer in multiples of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) for properties listed above.
8. Bidders are advised to go through the website for detailed terms & conditions of auction sale before submitting their bids and taking part in E-Auction sale proceedings.
9. Bidders shall be deemed to have read & understood the terms & conditions of sale & be bound by them.
10. It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the property before submission of the bid.
11. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded.
12. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price including EMD already paid, within next day of acceptance of bid price by the Authorised Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of sale. The auction sale is subject to confirmation by the Bank. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money, already deposited and property shall be put to re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/ right in respect of property/ amount.
13. Neither the Authorised Officer / Bank nor e-Auction service provider will be held responsible for any Internet Network problem/Power failure/ any other technical lapses/failure etc. In order to ward-off such contingent situation the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power back-up etc. for successfully participating in the e-Auction event.
14. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/ Registration fees/ other charges, etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, assessment charges, etc. owing to anybody.
15. The Authorised Officer/Bank is not bound to accept the highest offer and has the absolute right & discretion to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceedings at any stage without assigning any reason there for.
16. The Sale Certificate will be issued in the name of the purchaser(s) / applicant (s) only and will not be issued in any other name(s).
17. The sale shall be subject to rules/ conditions prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Further details/enquiries if any on the terms and conditions of sale can be obtained from the respective branches on the contact numbers given..

SALE NOTICE TO BORROWER/ GUARANTORS
The undersigned being the Authorized Officer of the Bank of India is having full powers to issue this notice of sale and exercise all powers of sale under securitization and reconstruction of financial assets and Enforcement of Interest Act, 2002 and the rules framed there under. You have committed default in payment of outstanding dues and interest with the monthly rest, cost and charges etc. in respect of the advances granted by the bank mentioned above. Hence, the bank has issued demand notice to you under section 13(2) to pay the above mentioned amount within 60 days. You have failed to pay the amount even after the expiry of the 60 days. Therefore, the Authorized Officer in exercise of the powers conferred under section 13(4), took possession of the secured assets more particularly described in the schedule mentioned above. Notice is hereby given to you to pay the same as mentioned above before the date fixed for sale failing which the property will be sold and balance if any will be recovered with interest and cost from you. Please note that all expenses pertaining to demand notice, taking possession, valuation and sale of assets etc. shall be first deducted from the sale proceeds which may be realized by the undersigned and the balance of the sale proceeds will be appropriated towards your liability as aforesaid. You are at liberty to participate in the auction to be held on the terms and conditions thereof including deposit of earnest money.

Sd/-
Authorized Officer
Bank of India

Date: 12.02.2026
Place: Mumbai

Ujjivan SMALL FINANCE BANK

SECOND FLOOR, GMTT BUILDING
D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 THROUGH PAPER PUBLICATION

A notice is hereby given that the following borrower(s) have defaulted in the repayment of principal and payment of interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets mentioned against each account. The notice under Section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor (s) on their last known address by registered post. However the notices have been returned un-served and the Authorised Officer has reasons to believe that the borrower(s) / guarantor(s) are avoiding the service of notice, as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of the Branch & Borrower / Guarantor	Description of the Secured Assets	Date of Demand Notice	Date of NPA	Amount as per demand notice
BRANCH : Saharanpur	All that piece and parcel of residential plot measuring 50 Sq. Yards (41.80 Sq Mtrs.) situated at Plot No. 53, Khaska No. 836/1, 846, 847, 848, 850 and 851, Dara Kot Tala Sawad Berun, Dar Abadi Murseen Colony, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001, which is bounded as follows: Boundaries: East: Plot No. 52, West: Part of Plot No. 53, North: Plot No. 58, South: Way. The Property belongs to Muzammil S/o Naushad @ Noshad @Noshad i.e. No. 1 among you. Details of Security Agreement Memorandum of deposit of title deeds for creation of mortgage dated: 01-07-2024	09/01/2026	09-12-2025	Rs. 7,27,060/- as on 25-12-2025 plus interest and other charges at contracted rate from 26-12-2025

1. Muzammil S/o Naushad @ Noshad @Noshad (Borrower) Faisal Town Khatta Kheri, Mursalin Taj Colony, Saharanpur, Uttar Pradesh - 247001 Also at: Muzammil S/o Naushad @ Noshad @Noshad, Dara Kot Tala Swad Bairun, Dar Abadi Murseen Colony, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001, which is bounded as follows: Boundaries: East: Plot No. 52, West: Part of Plot No. 53, North: Plot No. 58, South: Way. The Property belongs to Muzammil S/o Naushad @ Noshad @Noshad i.e. No. 1 among you. Details of Security Agreement Memorandum of deposit of title deeds for creation of mortgage dated: 01-07-2024

The above borrower(s)/guarantor(s) are advised to pay the amount mentioned in notice within 60 days from the date of publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of notice as per provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002. Moreover the borrower(s) / Guarantor(s) are hereby restrained from dealing with any of the above secured assets mentioned above in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in force.

Date: 14.02.2026 Place : Saharanpur Authorised Officer Ujjivan Small Finance Bank Ltd.

India Shelter HOME LOANS

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

Regd. Office: Plot-15, 6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd. Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement (security) Interest Act, 2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002, issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property Sured To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Properties Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/Her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Properties And Any Dealing With The Properties Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

Name of the Borrower/Guarantor (Owner Of The Property) & Loan Account Number	Description Of The Charged/mortgaged Property (All The Part & Parcel Of The Property Consisting Of)	Dt. of Demand Notice, Amount Due As On Date Of Demand Notice	Date Of Possession
MR/ MRS. JANKI DEVI & LALARAM & GOPAL Reside At: 208 Balaiyo Ki Dhani Mansarovar Jaipur Rajasthan 303348 (LOAN ACCOUNT NO. HLDJAHALNS000005082958/AP-1019707)	All Piece And Parcel Of Patta No. 28 Book No. 143 Village Mamana, Gp Mamana P.S Dudu Jaipur Rajasthan 303348. Adm 188.88 Sq. Yards. Boundary: -east: House Of Nathu Ram West: Land Of Malaram (brother), North: Self Bada, South: Aam Raasta.	Demand Notice 11-04-2025 Rs. 4,92,669/- (Rupees Four Lakh Ninety-two Thousand Six Hundred And Sixty-nine Only) Due As On 11-April-2025 Together Interest Applicable From 12-April-2025 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	10.02.2026
MR/ MRS. GUDDI DEVI & PRAHLAD & ASHOK Reside At: Harijano Ka Mohalla, Deoli Tonk, Dist Tonk, 304023 Rajasthan - (LOAN ACCOUNT NO. HL1SVLNS000005114690 / AP-10264902)	All Piece And Parcel Of Patta No. 37 Village Deoli Gram Panchayat Deoli Panchayat Samiti Uniyara District Tonk Rajasthan Tonk Rajasthan, Adm Area-110 Sq. Yard. Boundary:- east- House Of Rajesh, West- Vacant Area, North- House Of Raju, South- Aam Raasta.	Demand Notice 11-11-2025 Rs. 6,52,081/- (Rupees Six Lakh Fifty-two Thousand Eighty-One Only) Due As On 11-November-2025 Together With Interest From 12-November-2025 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	11.02.2026
MR/ Mrs. Para Devi & Ganesh Meena & Legal Heirs Of Late Praveen Kumar Meena Reside At: Plot No. 22 Maca Shikambari Nagar Giridhari Pura Vaishali Nagar Jaipur Rajasthan 302021 (loan Account No.-HLJARANLS000005061538/AP-10143811) Branch: Jaipur-5	All Piece And Parcel Of Plot No. 22 Maca Shikambari Nagar B Gandhi Path West Lalarpura Road Jaipur Rajasthan 302021, Adm. Area 69.67 Sq. Yards. Boundary: -east: Plot No. 21 West: Other Land, North: Road 20 Feet, South: Plot No. 22.	Demand Notice 11-11-2025 Rs. 10,01,097/- (Rupees Ten Lakh One Thousand Ninety-seven Only) Due As On 11-november-2025 Together Interest Applicable From 12-november-2025 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	13.02.2026

Place: RAJASTHAN Date: 14.02.2026 For India Shelter Finance Corporation Ltd (Authorized Officer)
For Any Query, Please Contact Mr. Vinay Rana (79886 05030) Or Himmat Singh Rathore (8290680920)

U. P. HOTELS LIMITED

CIN: L5510DL1961PLC017307

Regd. Office: 1101, Surya Kiran, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Tel: 011-23722596-98, Fax: 011-23312990
Email: clarkssuryakiran@yahoo.co.in, Website: www.hotelclarks.com

Extracts of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter & Nine Months period ended 31st December, 2025

(Rs. in Lakh except earning per share)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months ended		Year ended
		31.12.2025 Unaudited	30.09.2025 Unaudited	31.12.2024 Unaudited	31.12.2025 Unaudited	
1	Total Income from Operations	5,677.22	2,534.65	5,521.87	11,098.07	15,290.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2,218.66	(265.51)	2,277.39	2,388.39	3,971.68
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2,218.66	(265.51)	2,277.39	2,388.39	3,971.68
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	1,660.27	(198.69)	1,704.22	1,787.28	1,750.70
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,664.59	(171.73)	1,709.40	1,767.59	1,724.01
6	Equity Share Capital	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
	1. Basic:	30.75	(3.68)	31.56	33.10	32.42
	2. Diluted:	30.75	(3.68)	31.56	33.10	32.42

NOTES:-
1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 13th February, 2026. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.
2. The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the Quarter and Nine Months period ended 31st December, 2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months period results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com.

FOR U. P. HOTELS LIMITED
Sd/-
APURV KUMAR RUPAK GUPTA
(Joint Managing Directors)
DIN: 00043538 DIN: 00007310

Date : 13.02.2026
Place : New Delhi

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED

Registered Office: No. 11, Rani Jhansi Road, (Motia Khan), M.M. Road New Delhi -110055
CIN: L74899DL1993PLC055697
Email : ekam.leasing1@gmail.com, info@ekamleasing.in
Website : www.ekamleasing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31 DECEMBER, 2025

The Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter ended on December 31, 2025 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on February 12, 2026.

The full format of Financial Results are available on the website of Stock exchange at www.bseindia.com also on the Company's website i.e www.ekamleasing.in . The same can be accessed by scanning the QR Code.

Please scan the below QR Code to view the full financial results:



On Behalf of the Board of Directors
EKAM LEASING AND FINANCE CO. LIMITED
Sd/-
Rakesh Jain
Chairman Cum Managing Director

Place-New Delhi Date-12th February, 2026 DIN:00061737

PUBLIC NOTICE

OPTIEMUS INFRACON LIMITED
REGISTERED OFFICE: 4/31, 2nd Floor, Jagat Nagar - III, New Delhi-110024 (Corporate office) A-7 Sector 85 GAUTAM BUDDH NAGAR NOIDA (UTTAR-Pradesh) 201301 Notice is hereby given that the following share certificates of Optiemus Infracon Limited has/have been lost/duplicate and has/have applied to the company for the issue of duplicate share certificates.

File No.	Name of holder	Security Certificate No.	Distinctive No. From	To	No of shares
0003028	Rajendra Kumar Singla	34132-34135	3412301	3412700	3800
		34141-34145	3413201	3413700	
		34147-34152	3413801	3414400	
		34156-34157	3414701	3414900	
		34163-34169	3415401	3416100	
		34171-34172	3416201	3416400	
		34175	3416601	3416700	
		34178-34188	3417001	3418000	
		34210	3420101	3420200	

Any person who holds any share in respect of the said certificate(s) should lodge such claim (s) with the share department of the company at its registered office as per address given below within 15 days of the publication of this NOTICE. After whose name will be entered and the certificate(s) will be issued to the person whose name is entered in the said certificate(s) on or after 14.02.2026. Place: Delhi.

FORM NO.14

[See Regulation 3(2)]
By Regd. A/D, Dasti failing which by Publication

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1)

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

DEMAND NOTICE

NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.

RC/66/2024
PUNJAB NATIONAL BANK Versus SANDEEP KUMAR

To
(CD 1) SANDEEP KUMAR S/O GIRDHARI LAL, R/O WZ-238, A 80 YARDS HARJIAN COLONY, TILAK NAGAR, DELHI 110118 Also At H N O 1209, 12TH FLOOR, TOWER H, RED APPLE HOMEZ, MANUJ U HOMES INDIA LTD., KHASRA NO 1109 1110 MORTA, GHAZIABAD. U.P. 201003
(CD2) SURESH O RAME
R/O 52 SARAI KAL KHAN, HAZRAT NIZAMUDIN Central-DELHI-110013

This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI(DRT 1) in TA/1196/2023 an amount of Rs 293400.40 along with pendente lite and future interest @ 7.60 % Compound Interest Monthly w.e.f. 14/12/2021 till realization and costs of Rs 27000 (Rupees Twenty Seven Thousands Only) has become due against you (Jointly and severally/Fully/Limited).

2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipts of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of yours assets on or before the next date of hearing.
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 20/02/2026 at 10:30 a.m. for further proceedings.
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after this notice of the certificate / execution proceedings.
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due. Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 27/11/2025.

RAVINDER KUMAR TOMAR, RECOVERY OFFICER-I
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (DRT 1)

PUBLIC NOTICE

EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

CIN: U67100MH2007PLC174759
Retail Central & Regd. Office: Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098

PUBLIC NOTICE

1. MR. VIKAS KUMAR (BORROWER) House No. A-205, Khaska No. 74/11 min, 25 Feet Road, Gagan Vihar, Hadbast Village Brahmputra, Bhounpura, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005. 2. MR. KUSUM (CO-BORROWER) House No. A-205, Khaska No. 74/11 min, 25 Feet Road, Gagan Vihar, Hadbast Village Brahmputra, Bhounpura, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201005.

REF: REF. LOAN ACCOUNT NO. HM/0245/H/16/100052 IN THE NAME OF VIKAS KUMAR (BORROWER) ALONG WITH MRS. KUSUM (CO-BORROWER), THE CREDIT FACILITIES GRANTED BY POONAWALLA HOUSING FINANCE LIMITED, FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LIMITED (ASSIGNOR).
RE: NOTICE FOR VACATION OF INVENTORY / REMOVAL OF THE HOUSE-HOLD ARTICLES/MOVABLE PROPERTIES LYING KEPT IN THE MORTGAGED PROPERTY I.E. HOUSE NO. A-205, AREA MEASURING 137.96 SQ. MTRS. (I.E. 165 SQ. YARDS), COMPRISED IN KHASRA NO. 74/11 MIN, SITUATED AT RESIDENTIAL COLONY GAGAN VIHAR, HADBAST VILLAGE BRAHMPUTRA BHOUPURA, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD (SECURED ASSET).
Dear Sir/Madam,
We, Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited are a company incorporated under the Companies Act 1956, having its Registered Office at Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400098 and registered with the Reserve Bank of India as an Asset Reconstruction Company, pursuant to Section 3 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Hereinafter referred to as "SARFAESI ACT") acting in its capacity as Trustee of EARC TRUST SC 425 (hereinafter referred as "EARC") hereby state as follows:
1) The financial facilities extended by Poonawalla Housing Finance Limited, formerly known as Magma Housing Finance Limited ("Assignor") have been duly assigned to Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited ("EARC"), acting in its capacity as Trustee of EARC Trust SC-425. Pursuant to the said assignment, EARC has stepped into the shoes of the Assignor and is fully entitled to exercise all rights and powers of a secured creditor in accordance with applicable law.
2) Despite repeated reminders and ample opportunities granted to the borrowers, the outstanding dues in respect of the captioned loan account remained unpaid. Consequently, EARC was constrained to enforce its security interest under the provisions of the SARFAESI Act, 2002.
3) It has been observed that certain inventory, household articles, and other movable properties belonging to the borrowers/co borrower continue to lie within the mortgaged property. Through this public notice, all borrowers and co borrowers are hereby called upon to remove the said household articles/movables within 7 (seven) days of issuance of this notice.
4) Failure to comply within the stipulated period shall result in EARC removing and disposing of the said movables without any further notice, and the proceeds thereof, if any, shall be adjusted against the outstanding dues.
5) You are requested to contact the authorized representative at (M): 9560056912 for further details and instructions.

Place: Ghaziabad Date: 14.02.2026 S

सार्वजनिक सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 सीआईएन: U67100MH2007PLC174759
 बुधवार केंद्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय: एडलवाइस हाउस,
 साईफटी रोड के पास, कलिंग, मुंबई 400086
 सार्वजनिक सूचना

1. श्री विकास कुमार (ऋणकर्ता) मकान संख्या 20-205, खरार संख्या 741/1 भिन, 25 फीट रोड, मकान विहार, हदरस्त गांव, ब्रह्मपुर, मोघपुर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005, 2. श्रीमती कुसुम (सह-ऋणकर्ता) मकान संख्या 20-205, खरार संख्या 741/1 भिन, 25 फीट रोड, मकान विहार, हदरस्त गांव, ब्रह्मपुर, मोघपुर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201005

संदर्भ: 3. आकांक्षा संख्या HM/0245/H/16/100052 विकास कुमार (ऋणकर्ता) और श्रीमती कुसुम (सह-ऋणकर्ता) के नाम पर। यह ऋण सुविधा पुनर्वाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पूर्व में मैना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (असाधारण) द्वारा प्रदान की गई है।

विषय: पिछली रखी संपत्ति मकान संख्या ए-205, क्षेत्रफल 137.96 वर्ग मीटर (अर्थात 165 वर्ग गज), जिसमें खरार संख्या 741/1 भिन शामिल है, आवासीय कॉलोनी एगन विहार, हदरस्त, ग्राम ब्रह्मपुर, मोघपुर, ताहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित है, में रखे/रखे गए धरेदू सामान/बल संपत्ति की सूची खाली करने/हटाने के संबंध में सूचना (सुरक्षित परिसंपत्ति)

श्रीमान / श्रीमती,
 हम, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्गत एक कंपनी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिंग, मुंबई 400086 में स्थित है और जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुस्थापित हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे "संरक्षणी अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में पंजीकृत है। हम ईएआरसी ट्रस्ट एएससी 426 (जिसे आगे "ईएआरसी" कहा गया है) के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए निम्नलिखित निवेदन करते हैं:

1) पुनर्वाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, "ईएआरसी" कहा गया है) के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए निम्नलिखित निवेदन करते हैं: 2) पुनर्वाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, "ईएआरसी" कहा गया है) के न्यायी के रूप में कार्य करते हुए निम्नलिखित निवेदन करते हैं: 3) यह देखा गया है कि उधारकर्ताओं/असाधारणों से संबंधित कुछ इन्वेन्ट्री, धरेदू सामान और अन्य बल संपत्तियां पिछली रखी संपत्ति के भीतर ही पड़ी हैं। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, सभी उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे इस सूचना के जारी होने के 7 (सात) दिनों के भीतर उक्त धरेदू सामान/बल संपत्ति को हटा दें। 4) निष्पत्ति अर्थात के भीतर अनुपालन न करने पर, ईएआरसी बिना किसी पूर्व सूचना के उक्त बल संपत्तियों को हटाकर उनका निस्तारण कर देगा, और उससे प्राप्त कोई भी राशि बकाया राशि के विरुद्ध सामग्रीयत की जाएगी। 5) अधिक जानकारी और निर्देशों के लिए कृपया प्राधिकृत प्रतिनिधि से (मोबाइल): 9560056812 पर संपर्क करें।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
 (ईएआरसी ट्रस्ट एएससी 426 के लिए ट्रस्टी)

स्थान: गाजियाबाद
 दिनांक: 14-02-2026

Edelweiss
 Asset Reconstruction

pnb Housing Finance Limited
 पंजीकृत कार्यालय: अंश तल, अरविंद नगर, 22, के.टी. मार्ग, नई दिल्ली-110001, दूरभाष: 011-23357171, 23357172, 23357173, 23357174, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
 शाखा पता: प्रमज तल, कर्मवीर कॉन्फ्लेक्स, सुख नं. 104-105, ब्लॉक नं. 38/ए, संजय प्लेन, अगस्त-282002

अधिष्ठापित सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अयोध्यासहकारी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रविष्टि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अनुपालन में और अधिनियम हित (प्रवर्तन) विधायक 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रवृत्ति शक्तियों के प्रयोगावधान, मांग सूचना/ए प्रत्येक खाते के समक्ष अर्थात वित्त को निरस्त की थी/थी, जिन्होंने संबंधित ऋणकर्ता/ओं को प्रत्येक खाते के समक्ष अर्थातनुसार राशि का वसूल(गै) की तिथि/उक्त सूचना(गै) की प्रवृत्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभूतिकरण करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/गण राशि का प्रतिभूतिकरण करने में विफल हो चुके हैं, अतः उपरोक्त ऋणकर्ता/ओं को तथा जन्तुआधार को सूचित किया जाता है कि अयोध्यासहकारी ने यहां हमने निम्न लिखित संपत्तियों/यां का, उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ वित्त उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रवृत्ति को प्रयोगावधान, प्रत्येक खाते के समक्ष अर्थात वित्तियों/ए, अधिनियम कर लिया है। ऋणकर्ता/ओं को विशेष रूप से तथा जन्तुआधार को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति/यां का लेन-देन न करे तथा संपत्ति/यां का कोई व किस्म की प्रकार का लेन-देन, ऋणमुक्ति के अनुरोध एक निर्धारित बकाया राशि तथा हरे राशि पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्रभारानी होना। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोहनायं उपरबध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रभारानी को एवं आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता संख्या	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता /गारंटर के नाम	गैंग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अधिकृत तिथि जाने की तिथि	बंधककृत संपत्ति का विवरण
HOU/AGR/05 22/987528 बी. ओ. आगरा	श्री आर्या सिंह तथा श्रीमती श्वेता सिंह	22-05-2025	रु. 30,41,166.40/- (एकदश लक्ष सत्तर हजार एक सौ अठारह तथा चालीस पैसे मात्र)	10-02-2026 (मौखिक)	भूखंड सं. 19 पर स्थित मकान, खरार सं. 436 एएस का भाग, ग्राम- सुगमपुर, बार्ड- इंदिरा प्रियदर्शिनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001 में स्थित है।

स्थान: अगस्त, दिनांक: 13-02-2026 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड
 CIN: L74899DL1994PLC057507, पंजी. कार्यालय: बी-09, 412, आईटीएन टॉवर टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088
 वेबसाइट: www.brilliantportfolios.com, टेली: 011-45058963, ई-मेल: brilliantportfolios@gmail.com

31.12.2025 को समाप्त तिमाही/ नौ महीने के लिए अलेखापरीक्षित परिणामों का सारांश
 (प्रति शेयर डेटा को छोड़कर रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2025	समाप्त तिमाही 30.09.2025	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त नौ महीने 31.12.2025	समाप्त नौ महीने 31.12.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2025
	(अनंकेषित)	(अनंकेषित)	(अनंकेषित)	(अनंकेषित)	(अनंकेषित)	(अनंकेषित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	75.49	74.54	75.05	218.72	232.09	321.43
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण मदों से पूर्व)	15.82	19.53	16.19	51.54	51.42	75.59
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	15.82	19.53	16.19	51.54	51.42	75.59
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	10.62	14.62	12.11	37.35	36.98	55.07
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	10.62	14.62	12.11	37.35	36.98	55.07
इंविस्टी शेयर पूंजी	310.18	310.18	310.18	310.18	310.18	310.18
आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य 10/- रु. प्रति का)						
(ए) मूल	0.34	0.47	0.39	1.20	1.19	1.78
(बी) तनुकृत	0.34	0.47	0.39	1.20	1.19	1.78

टिप्पणियाँ: 1. 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा और सिफारिश की गई है और 13.02.2026 को आयोजित कंपनी के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण तथा अन्य प्रकटीकरण अधिनियम) विनियमनों, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दायित्व की गई 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अनेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अनेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.brilliantportfolios.com पर उपलब्ध है। 3. 02 अर्थातवर्ष के आंकड़ों के अनेकित अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाने हेतु जहां जरूरी विचारण गया, पुनः एकत्रित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

हिले एवं कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियो लिमिटेड के निदेशकों का बोर्ड हस्ता/- रचित वन, प्रबंध निदेशक
 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 13.02.2026
 DIN: 02682612

सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 सांठ संख्या-233-234-235, सेक्टर-68, नलनगर, फरीदाबाद-121004, (हरियाणा)
 फोन: 91-8826794470-71 वेबसाइट: <http://www.cenlub.in>
 कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L67120HR1992 PLC035087 ईमेल: investors@cenlub.in
31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने की अवधि के लिए स्वतंत्र गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
		31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	1,653.88	2,162.26	1,736.56	5,274.26	5,427.17	7,590.79
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर पूर्व, अपवादनात्मक और/या असाधारण मदों)	143.58	262.44	258.63	609.40	885.93	1,293.93
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (अपवादनात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	143.58	262.44	258.63	609.40	885.93	1,293.93
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (अपवादनात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	107.44	196.38	193.53	456.01	630.12	893.97
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [लाभ/(हानि)] अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है/	107.44	196.38	193.53	456.01	630.12	872.34
6	इक्विटी शेयर पूंजी	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29
7	पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार रिजर्व (पुनर्मुल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का) (निस्तार और बंद परिचालन के लिए) मूल: डिबिट/ऋण	2.30	4.22	4.15	9.78	13.51	19.17
		2.30	4.22	4.15	9.78	13.51	19.17

टिप्पणी: 1. कंपनी केवल "मशीनरी और मशीनरी पुर्जों" के क्षेत्र में काम करती है। 2. पिछली अवधियों के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। 3. उपरोक्त अलेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन) की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2026 को आयोजित बैठकों में अनुमोदित किए गए हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने इच्छुकी सौमित्र समीक्षा की है। इन्ट्रि-एड्स लिमिटेड के पास दायित्व किया जा रहा है। अलेखापरीक्षित परिणामों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.cenlub.in और एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर जाएं। कंपनी के उपरोक्त अलेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन) भारतीय लेखा मानकों (इंड-एस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 की धारा 133 के तहत अधिसूचित हैं, जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं।

सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर/— अंश मित्तल पूर्णकालिक निदेशक (डीआईएन: 00041986)

AXIS FINANCE LIMITED
 (CIN: U65921MH1995PLC212875)
 Axis House, C-2, Noida International Centre, Parkouring Budhkar Marg, West, Mumbai - 400 025

ई-सार्वजनिक नीलामी-सह-बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुस्थापित हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। सुस्थापित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के प्राधान्यों के तहत पठित। आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/उधारकर्ताओं, गारंटर/अंश संयोजकों/बंधकों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधकबंधक हैं और जिनका मौखिक कब्जा एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें "जैसा है जैसा है", "जैसा है वैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सारवा का" आधार पर 02.03.2026 को रुपये 42,51,147/- (ब्यालीस लाख इय्यावन हजार एक सौ सैतालीस रुपये मात्र) की बसुली के लिए पेश जाएगा, जो 05.02.2026 तक बकाया राशि है (एक राशि संरक्षणी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी की गई मांग सूचना की तिथि 30.09.2024 तक बकाया है।) रुपये 37,00,068/- (केवल सैतीस लाख अठारस हजार रुपये), संविदा दर्ता पर ब्याज सहित, साथ ही डिपॉजिट/दंडनात्मक ब्याज और अन्य शुल्क आदि, ऋणकर्ता/निरीचारी/गारंटर से अंतिम भुगतान/बसुली होने तक, अर्थात् 1) वरि मोग्य (ऋणकर्ता), 2) अनिती मोग्य (सह-ऋणकर्ता) /निरीचारी, 3) अंतिम मोग्य (सह-ऋणकर्ता) 1) और 4) के एक एक्सकुसिव (सह-ऋणकर्ता) 1)। (इसके बाद सामूहिक रूप से "ऋणकर्ता")। परिसंपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य (आरपी), बयान राशि जमा (ईएनडी) और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है।

अनुसूची - 1

अचल सुरक्षित संपत्ति का विवरण

संपत्ति संख्या 18036 का संपूर्ण निहित वित्त तल (अंश के अधिकार सहित), 73.5 वर्ग गज क्षेत्रफल, खरार संख्या 487, मकान संख्या 2 की आवासीय में स्थित, प्रभात पुरा, पश्चिम चेतनार नगर, किरकपुर गांव, शाहदर, दिल्ली - 110032। और ऋण/सौ की सीमाएं पूर्व - 16 फुट चौड़ी सड़क परिसर - अन्य की संपत्ति उत्तर - अन्य की संपत्ति दक्षिण - अन्य की संपत्ति

अनुसूची - 1
ई-नीलामी का विवरण

संपत्ति/ओं का विवरण	अनुसूची - 1 के अनुसार
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक: 02.03.2026 समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल विस्तार के साथ
बोली प्रस्तुत करने की तिथि और समय	दिनांक: 27.02.2026 सुबह 4:00 बजे तक

आरक्षित मूल्य: 33,57,239/- रुपये (केवल सैतीस लाख सत्तारन हजार दो सौ उन्नीसवीस रुपये)
 * यह कौमल जिससे कम पर फ्लैट/संपत्ति नहीं बेची जाएगी

बयान राशि (आरपी का 10%): 3,35,723 रुपये (तीन लाख सैतीस हजार सात सौ तैंस रुपये मात्र)

बोली बुद्धि राशि: 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र)

संपर्क व्यक्ति का विवरण और मोबाइल नम्बर: श्री सार्वक मर्मा, मोबाइल: 9810163312

बिक्री के विस्तृत विवरण और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें, यानीबेस पोर्टल अर्थात <https://www.auction.infolarge.com> और www.axisfinance.in पर दिए गए लिंक का संदर्भ करें

सुस्थापित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) / नियम 9 (1) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना।

इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9(1) के अंतर्गत एक ऋण के उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं और बंधककर्ता/ओं को उपयुक्त विधि पर ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है।

दिनांक: 12.02.2026, प्राधिकृत अधिकारी, स्थान: दिल्ली, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड

वीएसडी कॉन्फिन लिमिटेड
 CIN : L70101UP1984PLC006445
 रजि. कार्यालय: 308-बी, तीसरी मंजिल, शालीमार स्क्वायर, बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ - 226001 टेली: 0522-4334796, ई: vsdconfin@gmail.com, डब्ल्यू: www.vsdconfin.in

31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख रुपये में)

विवरण	31.12.2025 अनंकेषित	30.09.2025 अनंकेषित	31.12.2024 अनंकेषित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	-	-
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, सामान्य और असाधारण मदों से पूर्व)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) को शामिल करते तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(3.55)	(4.06)	(3.00)
इंविस्टी शेयर पूंजी	1,546.30	1,546.30	1,546.30
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) 10/- रु. प्रति का	(0.02)	(0.03)	(0.02)
तनुकृत	(0.02)	(0.03)	(0.02)

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त स्टैंडअलोन अनेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई और 13 फरवरी, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कंपनी पुष्टि करती है कि उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के संदर्भ में 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय के साथ सौमित्र समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। 31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अनेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.vsdconfin.in पर उपलब्ध है।

कृते वीएसडी कॉन्फिन लिमिटेड हस्ता/- संतोष कुमार गुप्ता डीआईएन: 00710533 कार्यकारी निदेशक

स्थान: लखनऊ
 तिथि: 13.02.2026

वीएसडी कॉन्फिन लिमिटेड
 CIN : L70101UP1984PLC006445
 रजि. कार्यालय: 308-बी, तीसरी मंजिल, शालीमार स्क्वायर, बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ - 226001 टेली: 0522-4334796, ई: vsdconfin@gmail.com, डब्ल्यू: www.vsdconfin.in

31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख रुपये में)

विवरण	31.12.2025 अनंकेषित	30.09.2025 अनंकेषित	31.12.2024 अनंकेषित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	-	-
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, सामान्य और असाधारण मदों से पूर्व)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (सामान्य और असाधारण मदों के बाद)	(3.55)	(4.06)	(3.00)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) को शामिल करते तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(3.55)	(4.06)	(3.00)
इंविस्टी शेयर पूंजी	1,546.30	1,546.30	1,546.30
पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) 10/- रु. प्रति का	(0.02)	(0.03)	(0.02)
तनुकृत	(0.02)	(0.03)	(0.02)

टिप्पणियाँ: 1. उपरोक्त स्टैंडअलोन अनेकित वित्तीय परिणामों की ऑडिट समिति द्वारा समीक्षा की गई और 13 फरवरी, 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। कंपनी पुष्टि करती है कि उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के संदर्भ में 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर असंशोधित राय के साथ सौमित्र समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। 31.12.2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन अनेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.vsdconfin.in पर उपलब्ध है।

कृते वीएसडी कॉन्फिन लिमिटेड हस्ता/- संतोष कुमार गुप्ता डीआईएन: 00710533 कार्यकारी निदेशक

स्थान: लखनऊ
 तिथि: 13.02.2026

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
 पंजी. कार्यालय: 458-1/16, सोहन रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, भारत
 CIN: L35999HR1998PLC033943, फोन नं. 0124-4233867-70, वेबसाइट: www.jmaindia.com, ईमेल आईडी: info@jmaindia.com

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए स्टैंडअलोन और सॉलिविटेड अनंकेषित वित्तीय परिणामों का उद्घरण (रु. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	स्टैंडअलोन					कंसोलिडेटेड						
		समाप्त तिमाही 31.12.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 30.09.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अनंकेषित)	समाप्त नौमाही 31.12.2025 (अनंकेषित)	समाप्त नौमाही 31.12.2024 (अनंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 30.09.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2025 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.03.2025 (अनंकेषित)	
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	13104.87	11295.28	10955.88	35265.93	31338.63	43917.60	17068.26	14369.48	14296.58	45586.51	40235.22	56360.27
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादनात्मक और/या असाधारण मदों से पहले)												